

*ADHBHUT INFRASTRUCTURE
LIMITED*



Registered Office:

DSC 260 South Court, DLF Saket, New Delhi-110017

Email : adhbhut.ind@rediffmail.com | Website : www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503DL1985PLC020195

Ref.No.: AIL/BSE/23/2023-24

Date: 13.08.2023

**To
The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001**

Security Code No.: 539189

Subject: Newspaper clippings of the published financial results for the quarter ended on June 30, 2023.

Dear Sir/ Ma'am

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the Quarter ended on June 30, 2023 as published in following newspapers:

1. Financial Express (English Language) dated 13th August, 2023.
2. Jansatta (Hindi Language) dated 13th August, 2023.

Copies of the Newspapers clippings are also available on the website of the Company i.e. <https://adhbhutinfra.in/> and on the website of the BSE i.e. www.bseindia.com.

Please take the same on your records.

Thanking you.

For Adhbhut Infrastructure Limited

**Parul Saini
Company Secretary**

Encl.: A/a

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED
CIN : L74899DL1968PLC004962

Regd. office : D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020.
Tel.: 011-35008342 | Email: info@salora.com | Visit us at : www.salora.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. In lacs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	3,580.06	2,323.36	1,054.52	11,628.74
Profit/(loss) before tax (including exceptional item)	(128.07)	(270.00)	(98.31)	(1,184.47)
Net profit / (loss) for the period after tax	(95.97)	(215.85)	(73.91)	(896.94)
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(97.86)	(221.22)	(74.64)	(904.51)
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet	-	-	-	4,967.32
Earning per Share (of Rs. 10/- each)				
Basic & diluted earning per share (before exceptional items)	(1.09)	(1.12)	(0.84)	(3.58)
Basic & diluted earning per share (after exceptional items)	(1.09)	(2.45)	(0.84)	(10.18)

Notes:

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 12 August, 2023 & these results have been reviewed by the Statutory Auditors of the company.
- The SLP on merits with the Honourable Supreme Court and writ petition in High Court of Delhi are still pending for disposal and contingent liability against this matter shall stand as it is. However, recently two of similar nature of cases has been decided in the favour of the appellant by the CESTAT and Honourable Supreme Court.
- Deferred tax assets Rs.2141.07 lacs as at 30th June, 2023 is expected to be realized, as the company strongly believes that it has reasonably certainty of realization. The company has enhanced its product portfolio and the new business strategy of deeper penetration, greater operational efficiency resulting in generation of sufficient profits in the future as anticipated / projected by the management on a prudent basis. Moreover there are no brought forward losses under the Income Tax Act, which are expiring during the current financial year as well as in the next financial year.
- In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e. "Consumer Electronic Division".
- Figures for the quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures upto the third quarter of the financial year.
- Previous quarters/year ended figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to the current quarter/year presentation.

Sd/-
GOPAL SITARAM JIWARAJKA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN : 00024325

Place : New Delhi.
Date : 12th August, 2023

These unaudited financial results can be assessed on the company's website at www.salora.com and also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com

indianexpress.com



I look at every side before taking a side.

Inform your opinion with insightful perspectives.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

pnb Housing Finance Limited

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement.

The borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sl. No.	Loan Account Number	Name of the Borrower/Co-Borrower/Guarantor	Date of Demand Notice	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description of the Property/ies Mortgageed
1.	HOU/AGR/1215/254797, HOU/AGR/1215/257118 & NHL/AGR/1215/255944, B.O.: AGRA	Mr. Dal Chand Chaudhary (Borrower) & Mrs. Mohan Wati	21-04-2023	Rs. 19,88,238.04 (Rupees Nineteen Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundred Thirty Eight And Four Paise Only) as on 21/04/2023	10-08-2023 Symbolic	Flat No. T-4/A-22, FF, Nilgiri House, Techman City, Phase-V, Khasra No. 313, Mauza Birzapur, Mathura, U.P.-281001.

Place: Agra, Dated: 10-08-2023
Authorized Officer, (M/s PNB Housing Finance Ltd.)

AKG EXIM LIMITED
CIN No. L00063DL2005PLC139045

REG. OFF.: H.B. TWIN TOWER, 07 FLOOR, MAX HOSPITAL BUILDING, NETAJI SUBHASH PLACE, PITAMPURA, DELHI-110034

CORP. OFFICE - UNIT NO. 237, 02ND FLOOR, TOWER-B, SPAZEDGE, SECTOR-47, GURUGRAM-122018, HARYANA
Email Id:-info@akg-global.com | Ph.: +91-124-4267873 | Fax: +91-124-4004503
Website: www.akg-global.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Amount in INR Lacs)

Particulars	CONSOLIDATED				STANDALONE			
	Quarter ended June 30, 2023	Quarter ended March 31, 2023	Quarter ended June 30, 2022	Year ended March 31, 2023	Quarter ended June 30, 2023	Quarter ended March 31, 2023	Quarter ended June 30, 2022	Year ended March 31, 2023
	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED
Total income/revenue from operations (net)	5,608.77	5,819.50	4,631.11	22,086.51	3,536.54	2,900.34	1,864.94	8,569.97
Net Profit / (Loss) for the period/year before exceptional items & tax	57.70	122.25	44.98	298.68	39.81	92.03	25.77	178.85
Net Profit / (Loss) for the period/year after exceptional items & tax	46.09	96.36	38.64	247.79	28.20	66.15	19.43	127.97
Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period/year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	46.09	96.36	38.64	247.79	28.20	66.15	19.43	127.97
Paid-Up Equity Share Capital	3,177.66	3,177.66	1,059.22	3,177.66	3,177.66	3,177.66	1,059.22	3,177.66
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)								
Earnings Per Share (of Rs.10/- each)								
Basic (Not annualised)	0.15	0.30	0.36	0.78	0.09	0.21	0.18	0.40
Diluted (Not annualised)	0.15	0.30	0.36	0.78	0.09	0.21	0.18	0.40

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the National Stock Exchange of India Limited i.e., www.nseindia.com and also on the Company's Functional websites i.e., www.akg-global.com.

Place: Gurugram
Date: 12th August, 2023

For and on behalf of
AKG EXIM LIMITED
Sd/-
Mahima Goel
(Managing Director)

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED
Regd. Off.: DSC-260, South Court, DLF Saket, New Delhi-110017
Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in | Tel.: +91-7048959386

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023
(Amount in Lacs)

S. NO.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2023 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	133.04	155.64	91.91	310.81
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	80.16	43.44	80.96	110.71
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	80.16	43.44	-1,175.44	-1,145.69
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	60.96	39.31	-1,175.44	-1,166.99
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	60.96	39.31	-1,175.44	-1,166.99
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
7	Other Equity				(1,800.21)
8	Earnings per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations:-				
a	Basic	0.55	0.36	-10.69	-10.61
b	Diluted	0.55	0.36	-10.69	-10.61

Notes to financial result:

- The above unaudited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 12th August 2023 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 12th August 2023.
- In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the statutory auditors have performed a limited review of the standalone financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2023. There are no modifications in the audit reports.
- The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- As the Company has only one Operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.
- Previous period's figures have been re-grouped/re-classified to render them comparable with the figures of the current period.
- Exceptional item include impairment loss in respect of building for Rs. 1,256.40 lakhs on the basis of valuation report dated 25th July 2022 by the registered valuer.
- The Financial Results for the Quarter ended 30th June 2023 is available on the website of the Company <https://adhbhutinfra.in> and the website of BSE i.e. www.bseindia.com.

For ADHBHUT INFRASTRUCTURE LTD.
Sd/-
Anubhav Dham
Chairman cum Whole Time Director
DIN:02656812

Date : 12/08/2023
Place : New Delhi

MOHINDRA FASTENERS LIMITED
Regd. Office: 304, Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi-Rohtak Road, Delhi-110087
CIN: L74899DL1995PLC064215, Tel. No.: +91-11-46200400, Fax No.: 011-46200444
Website: www.mohindra.asia, Email id: csnidhipathak@mohindra.asia

Extract of Standalone & Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30-06-2023
(Rs. In Lakhs except EPS)

SR. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		6/30/2023	3/31/2023	6/30/2022	31.03.2023	6/30/2023	3/31/2023	6/30/2022	3/31/2023
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	4246.34	5558.09	3334.26	17210.96	4246.34	5558.09	3334.26	17210.96
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	428.42	687.96	307.61	2027.73	428.42	687.96	307.61	2027.73
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	428.42	687.96	307.61	2027.73	424.81	679.16	307.11	2004.04
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after tax & Exceptional and /or Extraordinary Items)	403.71	531.16	229.12	1529.08	400.10	522.36	228.61	1505.39
5.	Total Comprehensive income comprising Profit / (Loss) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	410.65	588.35	227.43	1575.08	407.04	579.55	226.92	1551.39
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each fully paid up)	589.25	589.25	589.25	589.25	589.25	589.25	589.25	589.25
7.	Other Equity	-	-	-	8918.80	-	-	-	8886.89
8.	Earning Per Share (face value of Rs. 10/- per share) (for continuing operations)-								
1.	Basic (in Rs.) (not annualised)	6.85	9.01	3.89	25.95*	6.79	8.87	3.88	25.55*
2.	Diluted (in Rs.) (not annualised)	6.85	9.01	3.89	25.95*	6.79	8.87	3.88	25.55*

* Annualised

Notes:-

- The above (standalone & consolidated) un-audited financial results were reviewed & recommended by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 12, 2023. The Statutory Auditors have carried out a limited review for the quarter ended June 30, 2023 and have issued an unmodified report thereon.
- The above is an extract of the detailed format of un-audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full format of the said un-audited financial results are available on the Stock Exchange website i.e. www.mseil.in and also available on the Company's website at www.mohindra.asia.

For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Deepak Arjeja
(Chairman cum Managing Director & CEO)
DIN: 00006112

DATE:- 12.08.2023
PLACE:- New Delhi

Form No.3 (See Regulation-15(1)(a)) / 15(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor, SCO 33-34-45 Sector-17A, Chandigarh
(Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/321/2019

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 19512

SATE BANK OF INDIA
VS
VIKALP SAXENA

To,
(1) **VIKALP SAXENA** DW/S/O- H NO 10/65, RAJ NAGAR NEAR GURUDWARA, GAZIABAD Ghaziabad, UTTAR PRADESH Also At. VIKALP SAXENA C/O ELECTROSTEELS LTD. 312-314, 3RD FLOOR, JASOLA DISTRICT CENTRE, DLF TOWER B, DELHI-110025. CENTRAL, DELHI-110025 Also At. VIKALP SAXENA FLAT NO. 1103, SUSHMA GREEN VISTA, TOWER B, 11TH FLOOR, DHAKOLI ZIRAKPUR SAS NAGAR PUNJAB-160104. SAHIBZADA AJIT SINGH NAGAR/ MOHALI/AJITGARH, PUNJAB-160104

SUMMONS

WHEREAS, OA/321/2019 was listed before Hon'ble Presiding Officer / Registrar on 31/07/2023.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 4492015/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

- to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
- to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
- you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
- you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
- you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 24/11/2023 at 10:30A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 01/08/2023.

Signature of the Officer Authorised to issue summons

GOYAL ALUMINIUMS LIMITED
CIN: L74999DL2017PLC314879 Reg. Off.: 2814/6 Ground Floor, Chuna Mandi Paharganj New Delhi - 110055
Email: goyals2729@gmail.com website: www.goyalaluminiums.com

Particulars	Standalone		Consolidated		(In Lakhs)
	30th June 2023	31st March 2023	30th June 2022	30th June 2023	
	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	
Total Income from operations	1624.04	6599.01		1624.04	6599.01
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	77.05	289.94	Company was listed on SME Platform during the relevant period in BSE. As per Listing norms/requirements of SME Platform, quarterly financial results was not required to be reported. Hence the same was not prepared and reported to stock exchange.	77.05	289.94
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	77.05	289.94		77.05	289.94
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	65.13	214.98		65.13	214.98
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	65.13	214.98		68.14	216.89
Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- each)	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	
Reserves Excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year (31.03.2023)	322.45	107.47	319.71	102.82	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
1. Basic:	0.05	0.15	0.05	0.15	
2. Diluted:	0.05	0.15	0.05	0.15	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. www.goyalaluminiums.com

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

दक्षिण रेलवे

निविदा सूचना सं- १८/२०२३ दिनांक 10-08-2023
तथा सं: एम/एसजी. 2023-24-367 दिनांक 11-08-2023
भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से कार्यरत वारि, डीएसटीई/आई/एमएस

Table with columns: ई-निविदा, कार्य का नाम, अनुमानित नकद मूल्य (₹), समाप्त की अवधि

निविदा के पूर्ण विवरण, ई-निविदा पोर्टल https://www.ireps.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

सी.नि. डीएसटीई/ 11/एमएसएस

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रधान न्यायाधीश 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(वृत्तीय एवं वनस्पति मूल भी उपलब्धतः)
वार्ड सं.- UA/17/4/2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत समन

रजिस्टर्ड ऑफिस डीएसएस नवाम परशु राम शुक्लत सेवा में,
(1) मैसर्स डीगरा जार्जिन इंटरस्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वीपीपीएस सेंटर प्रथम तल 2 लोकल शांतिग सोडर मस्जिद मोड ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली, नई दिल्ली दिल्ली अन्य पता: मैसर्स डीगरा जार्जिन इंटरस्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एचएस-37, पहली मजिल कैलाश कॉलोनी मुख्य बाजार नई दिल्ली-110048, नई दिल्ली, दिल्ली-110048

समन
जबकि, ओए/174/2019 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 29-05-2023 को पेश किया गया था।
जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 3029215/- की ऋण वसूली के लिए आपसे विवरण मांगता है कि आप (एनपी) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर समन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (हस्ताक्षरों द्वारा प्रतियोगिता सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 के उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(सी) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :-
1) समन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताए कि प्राश्नित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;
2) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदन द्वारा विनिर्दिष्ट समस्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त समस्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;
3) आप को, सम्पत्ति की कुकी के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लभित रहने तक, प्रत्याभूति आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट समस्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संयोजित अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;
4) आप किसी भी आस्तिस पर कोई प्रतिभूति हित सुचित किया गया है तथा/ अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदन द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा सूचना की गई समस्तियों तथा आस्तियों का अंतरण, बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स में छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;
5) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूति आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा समस्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्रक्रिया में इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खातों में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदन को सुनवा करने तथा दिनांक 04-09-2023 को पूर्व 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने को भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असाफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 26-08-2023 को दिया गया।
समन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

GOYAL ALUMINIUMS LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC314879Reg. Off.: 2814/6 Ground Floor, Chuna Mandi Paharganj New Delhi - 110055

Email: goyals2729@gmail.com website: www.goyalaluminiums.com

Financial statements table for Goyal Aluminiums Limited comparing Standalone and Consolidated results for 30th June 2023 and 31st March 2023.

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

CAPFIN INDIA LIMITED

CIN: L74999DL1992PLC048032

Regd. Office: 1C/13, Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, New Delhi - 110005

Tel No: 011-28762142; E-mail id: capfinindia@yahoocoin; Website: www.capfinindia.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023

Financial statements table for Capfin India Limited showing Standalone and Consolidated results for the quarter ended 30th June 2023.

Notes:
1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th August, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & year to date financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. (www.bseindia.com) and on company's website www.capfinindia.com.

For and on behalf of Capfin India Limited
Sd/- Rachita Mantry Kabra Whole Time Director & CFO DIN: 03414391

KDDL LIMITED

CIN : L33302HP1981PLC008123

Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) - 173220

Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax : +91 172 2548302

Website: www.kddl.com ; Email id: investor.complaints@kddl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

(Rs. in Lakhs except earnings per share)

Financial statements table for KDDL Limited showing Standalone and Consolidated results for the quarter ended 30 June 2023.

Notes:
1. The above Unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12 August 2023.
2. The above is the extract of the detailed format of the Unaudited quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of Board of Directors Yashovardhan Saboo (Chairman and Managing Director) DIN:00012158

Place: Chandigarh Date: 12 August 2023

DR. M. INDUSCORP LIMITED

Regd. Office: 18B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Tel.: 011-28715800

Website: www.drinduscorp.com; Email: drm@induscorp.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2023

Financial statements table for Dr. M. IndusCorp Limited showing Standalone results for the quarter ended 30th June 2023.

*The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited.
Note:
a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

b) The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above Results and Notes for the Quarter ended, 30.06.2023 which needs to be explained.
c) The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to the current year classifications.

By the Order of the Board Sd/- [PREM PRAKASH] Managing Director DIN: 00289179

Place: New Delhi Date: 12/08/2023

अदमृत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डीएसई - 260 साउथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत, नई दिल्ली - 110017

ई-मेल: adbhutindia@rediffmail.com वेबसाइट: www.adbhutintra.in | दूरभाष: +91-7048959386

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के अन्तर्कालिक वित्तीय परिणाम के कथन का उद्घरण

Financial statements table for Admurt Infrastructure Limited showing Quarterly results for the quarter ended 30th June 2023.

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी:
1. उपरोक्त अन्तर्कालिक वित्तीय परिणामों की परिणामों का लेखापरीक्षा समिति द्वारा 12 अगस्त, 2023 को समीक्षा और सिफारिश की गई और बाद में कम्पनी के निदेशक मंडल की 12 अगस्त, 2023 को समन्वय बैठक में अनुमोदित किये गये।
2. सेबी (लिटिंग दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 में अपेक्षित के अनुसार, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 30 जून, 2023 को समाप्त कम्पनी के तिमाही समेतित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की है। जिसकी अन्तर्कालिक रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है।
3. वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) साथ में पठित सेबी (लिटिंग दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत बनाये गये प्रासंगिक नियमों एवं विनियमनों के अनुसार तैयार किये गये।
4. बूकिंग कम्पनी केवल एक सेगमेंट का संचालन करती है, इसलिए आईएनडी एएस 108- संचालन सेगमेंट लागू नहीं है।
5. पिछले अवधि के आकड़ों वर्तमान अवधि की पुष्टि करने के लिए जहाँ पर आवश्यक हो, पुनर्मित एवं पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।
6. विशिष्ट मद में रु० 1,256.40 लाख की इमारत के सम्बन्ध में प्रति हिला मिलाकर शामिल है जिसके आधार पर मूल्यांकन द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2022 को पंजीकृत मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट दी है।
7. 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट https://adbhutintra.in एवं बीएसई की वेबसाइट i.e. www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते अदमृत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ताक्षर/अनुमोदक/अध्यक्ष कर्म पूर्णकालिक निदेशक DIN:02656812

तिथि : 12/08/2023 स्थान : नई दिल्ली

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

Regd. Office: 304, Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi-Rohtak Road, Delhi-110087

CIN: L74899DL1995PLC064215, Tel. No.: +91-11-46200400, Fax No.: 011-46200444

Website: www.mohindra.asia, Email id: csnidhipathak@mohindra.asia

Extract of Standalone & Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30-06-2023

(Rs. In Lakhs except EPS)

Financial statements table for Mohindra Fasteners Limited showing Standalone and Consolidated results for the quarter ended 30-06-2023.

Notes:-
1. The above (standalone & consolidated) un-audited financial results were reviewed & recommended by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 12, 2023.
2. The above is an extract of the detailed format of un-audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulation, 2015. The full format of the said un-audited financial results are available on the Stock Exchange website i.e. www.mse.in. and also available on the Company's website at www.mohindra.asia.

For & on behalf of the Board of Directors Sd/- Deepak Arjeja (Chairman cum Managing Director & CEO) DIN: 00006112

DATE:- 12.08.2023 PLACE:- New Delhi